

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय सेवा योजना

22.09.2021

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी राजकीय महाविद्यालय पांवटा साहिब में 22 सितम्बर 2021 को राष्ट्रीय सेवा योजना की जिला- स्तरीय प्री-आर0 डी0 एकदिवसीय चयन शिविर का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने की। इस चयन प्रक्रिया का आयोजन जिला नोडल अफसर प्रो0 रीना चौहान के निरीक्षण में किया गया । प्रो0 रीना चौहान ने बताया की इस शिविर में सिरमौर जिले से शिलाई, हरिपुरधार, संगड़ाह, नाहन एवम पांवटा के पांच महाविद्यालयों के 10 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह चयन प्रक्रिया चार चरणों में सम्पन्न हुई जिसमें 1500 मीटर रेस, परेड, सांस्कृतिक योग्यता एवं साक्षात्कार थे जिसमें रिटायर्ड आर्मी अफसर श्री महेंद्र सिंह कपूर, पांवटा महाविद्यालय से श्री रामलाल तोमर, डॉ विवेक नेगी, डॉ मोहन सिंह चौहान ने बतौर निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी श्री बी0 आर0 ठाकुर, डॉ अश्वनी कुमार, सुश्री अनिता, के साथ साथ पिछले वर्ष आर0 डी0 परेड में शामिल होने वाले स्वयंसेवक सतीश एवम पांवटा कॉलेज के पूर्व स्वयंसेवक भार्गव तोमर ने भी शामिल होकर प्रतिभागियों के मनोबल बढ़ाया। प्राचार्या डॉ वीना राठौर ने परिणाम घोषित करते हुए बताया इस जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया में पुरुष वर्ग में नाहन महाविद्यालय से आशीष ठाकुर , हरिपुरधार महाविद्यालय से नीरज तथा महिला वर्ग में शिलाई महाविद्यालय से नेहा चौहान, पांवटा महाविद्यालय से विपाशा का चयन हुआ । प्राचार्या ने चयनित स्वयंसेवकों को बधाई देते हुए स्वयंसेवकों को राज्यस्तरीय प्री- आर0 डी0 शिविर में भाग लेने के मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या ने स्वयंसेवकों द्वारा दी गयी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को खूब सराहा। ये चयनित स्वयंसेवक 28 सितम्बर को राज्यस्तरीय प्री- आर0 डी0 चयन प्रक्रिया के लिए एम0 एल0 एस0 एम0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुंदरनगर में हिस्सा लेंगे।

अंत में जिला नोडल ऑफिसर ने जिला सिरमौर से आये सभी कार्यक्रम अधिकारियों व स्वयंसेवकों का इस कार्यक्रम में आकर सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। प्रो0 रीना चौहान ने बताया कि इस शिविर के आयोजन में विभिन्न कॉलेजों से आये कार्यक्रम अधिकारियों , निर्णायक मंडल के सदस्यों के साथ साथ कार्यालय अधीक्षक श्री नरेश बत्रा, श्री जावेद अली का भरपूर सहयोग मिला।

प्राचार्या

